



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 फाल्गुन 1931 (श0)
(सं0 पटना 155) पटना, शुक्रवार, 26 फरवरी 2010

सं0 2/सी0— 10105/2006—1482

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

16 फरवरी 2010

श्री प्रवीण कुमार झा, वि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 624/04 तत्कालीन कार्यापालक दण्डाधिकारी —सह— अधीक्षक, मंडल कारा सहरसा सम्प्रति जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज के विरुद्ध महालेखाकार (लेखा परीक्षक) बिहार, पटना प्रतिवेदनानुसार दिनांक 01 सितम्बर 1999 से 8 जनवरी 2000 तक में निकासी गयी राशि को रोकड़ पंजी में प्रवृष्टि नहीं करने, कोषागार सहित के नियम 86 का उल्लंघन एवं वित्तीय अनियमितता कर्तव्योपेक्षा एवं काराहस्तक नियम 74 का आरोप प्रतिवेदित किया गया। प्रतिवेदित आरोपों पर श्री झा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं संचिका में उपलब्ध सुसंगत कागजातों के समीक्षोपरान्त श्री झा के विरुद्ध प्रथम द्रष्टव्य आरोपों पर सरकार के प्रमाणित आदेशानुसार श्री झा को सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है :—

(क) तीन वेतन-वृद्धि अंशचायात्मक प्रभाव से रोक।

(ख) दण्ड की अवधि में किसी प्रकार की प्रोन्नति देय नहीं होगी।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री प्रवीण कुमार, वि०प्र०से०, जिला परिवान पदाधिकारी गोपालगंज एवं संबंधित को दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र प्रकाश सहाय,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 155-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>